



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1940 (श10)
(सं० पटना 132) पटना, बुधवार, 30 जनवरी 2019

सं० 08/आरोप-01-31/2017-16017 सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 दिसम्बर 2018

श्री राहुल वर्मन, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1363/2008, 1126/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरिया, लखीसराय के विरुद्ध रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने तथा राशि के गबन से संबंधी आरोपो के लिए आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 1554 दिनांक 13.07.2017 (जिला पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक 531 दिनांक 14.04.2012 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ सहित) द्वारा आरोप प्रतिवेदित हुआ।

2. विभागीय पत्रांक 10516 दिनांक 18.08.2017 द्वारा आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से उक्त प्रतिवेदन पर मंतव्य की मांग की गयी। जिसके आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 4504 दिनांक 14.04.2018 (जिला पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त मंतव्य सहित) द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री वर्मन के विरुद्ध राशि-31312.00 (एकतीस हजार तीन सौ बारह) रुपये विविध रोकड़पंजी से विचलन/हस्तान्तरण संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी लखीसराय से प्राप्त मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी तथा श्री वर्मन के विरुद्ध राशि-31312.00 (एकतीस हजार तीन सौ बारह) रुपये विविध रोकड़पंजी से विचलन/हस्तान्तरण संबंधी आरोप सही पाया गया।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राहुल वर्मन, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1363/2008, 1126/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरिया, लखीसराय को बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय यथा संशोधित) के नियम-19 के विहित प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित की जाती है:-

(I) निन्दन,

(II) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 132-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>